



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1075 राँची, शुक्रवार,

30 नवम्बर, 2018 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

29 नवम्बर, 2018

**संख्या-5/आरोप-1-70/2014-2826 (HRMS)--** श्रीमती अलका कुमारी, झा०प्र०से०, (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, जिससे NH/ 33 रिंग रोड के विस्तारीकरण तथा विभिन्न परियोजनाओं के भू-अर्जन संबंधित कार्य बाधित होने संबंधी आरोप उपायुक्त, हजारीबाग के जापांक-637, दिनांक 2 जुलाई, 2010 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, हजारीबाग के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभाग द्वारा इनके विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित किया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्न आरोप गठित किये गये-

**आरोप सं०-1.** श्रीमती अलका कुमारी, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा दिनांक 17 जून, 2010 से 19 जून, 2010 तक का आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 20 जून, 2010 को रविवारीय अवकाश का उपभोग करने का आवेदन फैंक्स से भेजकर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहीं। अवकाश में जाने के पूर्व इनके द्वारा नियंत्री पदाधिकारी से पूर्वानुमति नहीं लिया गया।  
**आरोप सं०-2.** अनधिकृत अवकाश पर जाने के कारण विभिन्न प्रकार के योजना से संबंधित कार्य एवं प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य बाधित हुआ।

**आरोप सं०-3.** अंचल कार्यालय, सदर का सामान्य रोकड़ पंजी, 2010 तथा दाखिल खारिज पंजी-27 (2010-11) के संधारण में लापरवाही बरती गयी है।

इनका उक्त कृत्य अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है तथा यह सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों के हेतु विभागीय संकल्प सं०-5828, दिनांक 28 अप्रैल, 2017 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-219, दिनांक 01 अगस्त, 2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

श्रीमती कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत इनकी तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-114, दिनांक 03 जनवरी, 2018 द्वारा श्रीमती कुमारी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्रीमती कुमारी ने पत्र दिनांक 16 मार्च, 2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा कोई साक्ष्य एवं कोई नया तथ्य अंकित नहीं किया गया।

अतः श्रीमती अलका कुमारी, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, हजारीबाग द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iii) के तहत तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड इन पर अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ALKA KUMARI 20060400006	श्रीमती अलका कुमारी, झा०प्र०से०, (प्रथम बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972

-----